

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० ४८] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च १४, १९६९/फाल्गुन २३, १८९०.

No. 48] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 1969/PHALGUNA 23, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March 1969

G.S.R. 813.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the State Government concerned, hereby authorises the District Collectors/Deputy Commissioners in the States of Mysore and Orissa, to perform, within their respective jurisdictions, the duties of a Collector under the Produce Cess Act, 1966 and the rules made thereunder, in respect of Cotton consumed in any mill with a view to producing or manufacturing any goods therefrom.

[No. 11(14)/67-C.A. I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

(231)

